

प्रेस विज्ञप्ति थाना कैम्पियरगंज दिनांक 29-05-2021

धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने एवं जनपद में हो रहे धोखाधड़ी के खुलासे हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद गोरखपुर के थाना कैम्पियरगंज में पंजीकृत मु.अ.सं. 175/21 धारा 419,420,467,468,471,406,504,506 भादवि के खुलासे हेतु पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कैम्पियरगंज नवीन कुमार सिंह, के नेतृत्व में टीम गठित कर आज दिनांक 29.05.2021 को मुखवीर की सूचना पर थाना क्षेत्र कैम्पियरगंज के बहद ग्राम अलेनाबाद बस स्टाप के पास से अजय कुमार श्रीवास्तव उर्फ भोलू पुत्र स्व. जैनेन्द्र श्रीवास्तव नि. ग्राम शिवलहिया लाला टोला थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

आवेदक सर्वेन्द्र कुमार शुक्ल पुत्र रामायण शुक्ल निवासी म0न0 313 आवास विकास कालोनी महादेव झारखण्डी कुडाघाट खोराबार उर्फ सुवा बाजार थाना कैण्ट जिला गोरखपुर व अनुप श्रीवास्तव पुत्र विश्वनाथ लाल श्रीवास्तव निवासी आवास विकास कालोनी म0न027 महादेव झारखण्डी खोराबार उर्फ सुवा बाजार थाना कैण्ट गोरखपुर को अभियुक्त अजय कुमार पुत्र जैनेन्द्र निवासी ग्राम शिवलहिया थाना कैम्पियरगंज गोरखपुर द्वारा छल कपट पूर्ण तरीके से रजिस्टर्ड मुहैयादा कराया गया था जिसके प्रतिफल में अभि0 अजय श्रीवास्तव उपरोक्त द्वारा दोनो लोगो से 11 लाख पच्चीस हजार खाते में व कई बार में लगभग 8 लाख रू. कुल 19 लाख प्राप्त किया। जब आवेदक बैनामा तहरीर कराने कैम्पियरगंज तहसील में आये व रिकार्ड जांचा तो पता चला कि अजय श्रीवास्तव का उक्त आराजी गाटा में 7 डिसमिल मात्र हिस्सा हैं। पैसा मांगने पर अभि0गण द्वारा एकराय होकर गाली गुप्ता व धमकी देना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण

अजय कुमार श्रीवास्तव उर्फ भोलू पुत्र स्व. जैनेन्द्र श्रीवास्तव नि. ग्राम शिवलहिया लाला टोला थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

अभियोग का विवरण जिसमे गिरफ्तारी हुई

मु.अ.सं. 175/21 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 504, 506 भादवि थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी दिनांक/समय व घटनास्थल

29.05.21/10.30 बजे /अलेनाबाद बस स्टाप

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 अतुल कुमार तिवारी थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
2. हे0का0 अरविन्द गिरी थाना कैम्पियरगंज, जनपद गोरखपुर